



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 6—अक्टूबर 12, 2012 (आश्विन 14, 1934)  
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 6—OCTOBER 12, 2012 (ASVINA 14, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

## केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 सितम्बर 2012

सं. डीपी/पर्स-1/2012/0076/11/8/2012---राष्ट्रपति निम्नोक्त वरिष्ठ  
लोक अभियोजकों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में  
पदोन्नति आधार पर उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से केन्द्रीय  
अन्वेषण ब्यूरो में उप-विधि सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं :---

क्र. सं.	नाम	उप-विधि सलाहकार के पद पर नियुक्ति
----------	-----	-----------------------------------

1	2	3
	सर्वश्री	
1.	आर. के. सैनी	24.05.2012
2.	आर. बी. शर्मा	25.05.2012
3.	राम मूर्ति कुशवाहा	28.05.2012
4.	आर. सोन्दराजन	01.06.2012
5.	अखिलेश कुमार मिश्रा	29.05.2012

1	2	3
6.	डी. आर सरस्वती	25.05.2012
7.	राम लाल नेगी	31.05.2012
8.	रबिन्द्र नाथ दास	13.08.2012

एम. सचदेव

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 17 सितम्बर 2012

सं. डीपी/पर्स-1/2012/077/3/50/91--श्री डी. आर. सरस्वती ने  
अधिर्वर्षिता की आयु हो जाने पर दिनांक 31.08.2012 (अपराह्न) से  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उप-विधि सलाहकार के पद का कार्यभार छोड़  
दिया है।

एम. सचदेव

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 सितम्बर 2012

सं. ओ.दो.-3837/2010-कार्मिक(एम.ओ.)--केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1955 के नियम-5 के उप नियम (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति जी एतद्वारा संयुक्त अस्पताल, केरिपुबल, बिलासपुर के डॉ. नरेन्द्र कुमार वैशणवा, चिकित्साधिकारी (इरला-8305) को नोटिस जारी करते हैं कि इस नोटिस के सरकारी गजट में प्रकाशन के एक माह की अवधि समाप्त होने पर उनकी सेवाएं समाप्त मानी जाएगी।

राष्ट्रपति जी के आदेश एवं नाम से जारी।

बी. एस. चौहान

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. डी.एक. 6/12-कार्मिक-डी.ए.आठ--श्री एम. एस. शेखावत, (इरला-4697), द्वितीय कमाण्डेन्ट, 40 बटा. के.रि.पु.बल, का एस.पि. जि., में सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) के पद पर 06 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के फलस्वरूप उन्हें Cabinet Secretariat GOI order सं. ए-12011/04/2011-एसएस दिनांक 02.05.2012 के अनुसार दिनांक 08.08.2012 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया गया था। उक्त अधिकारी की सेवाएं दिनांक 08.08.2012 (अपराह्न) से एस.पि.जि. मुख्यालय के निपटान (disposal) पर रहेंगी।

बी. एस. चौहान

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. डी.एक. 4/12-कार्मिक-डी.ए.आठ--श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, (इरला-4190), द्वितीय कमाण्डेन्ट, 1 बेतार बटा. के.रि.पु.बल, का आई. टी.पी.ओ. में उप महाप्रबंधक (सुरक्षा) के पद पर 03 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के फलस्वरूप उन्हें आईटीपीओ पत्र सं. 4-आईटीपीओ(1)/ई-1/2011 दिनांक 09.08.2012 के अनुसार दिनांक 03.09.2012 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया गया था। उक्त अधिकारी की सेवाएं दिनांक 03.09.2012 (अपराह्न) से आई.टी.पी.ओ. मुख्यालय के निपटान (disposal) पर रहेंगी।

बी. एस. चौहान

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 18 सितम्बर 2012

सं. ओ.दो. 3872/11-कार्मिक(चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. दिव्या के., चिकित्सा अधिकारी (इरला-8638), 100 द्रुत कार्य बल, के.रि.पु. बल, को संबंधित बटालियन से दिनांक 11.08.2012 (अपराह्न) को चार्ज सौंप दिया गया है।

तदनुसार, उक्त अधिकारी का नाम इस बल की नफरी से उक्त दिन अर्थात् दिनांक 11.08.2012 (अपराह्न) से हटाया जाता है।

बी. एस. चौहान

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो.-3653/2012-कार्मिक-डी.ए.-1--भारत सरकार ने श्री विवेक दुबे, भा.पु.से. (ए.पी. : 81) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति आधार पर रु. 67,000--79,000/- के एच.ए.जी. वेतन स्केल में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष तक या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने अपर महानिदेशक, के.रि.पु. बल का कार्यभार दिनांक 14.09.2012 (पूर्वाह्न) को ग्रहण कर लिया है।

बी. एस. चौहान

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 19 सितम्बर 2012

सं. ओ.दो.-7637/2012-कार्मिक(स.क.)--सिविल सेवा परीक्षा-2011 के माध्यम से भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयन होने के उपरान्त के.रि.पु. बल की सेवाओं से उनका तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री हेमराज मीना, सहायक कमाण्डेंट (इरला-7637), 73 बटालियन, के. रि.पु. बल ने दिनांक 30.08.2012 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उन्हें दिनांक 30.08.2012 (पूर्वाह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

समन्वय निदेशालय

(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-3, दिनांक 11 सितम्बर 2012

सं. ए-12012/2/अ.स.नि.(बीज.)/2011-प्रशा.-II--इस निदेशालय के श्री के. चेल्लतुरै, बीजलेख सहायक को अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) के पद पर रुपए 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रुपए 4,800/- के वेतनमान में दिनांक 17.07.2012 से पदोन्नत किया जाता है।

पी. के. सिंहल

निदेशक

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-3, दिनांक 11 सितम्बर 2012

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/297--सक्षम अधिकारी, के. औ.सु. बल नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का

प्रयोग करते हुए के.ओ.सु.बल के निम्नलिखित निरीक्षकों (कार्य) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक कमाण्डेंट (कार्य) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	सहायक कमाण्डेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
सर्वश्री			
1.	के. शशि कुमार	एसएचईपी सलाल	05.07.2012 (पूर्वाह्न)
2.	पी. एन. नायर	आईओसी बरौनी	16.07.2012 (पूर्वाह्न)
3.	रमेश चन्द	सीसीएल करगली	04.08.2012 (पूर्वाह्न)
4.	आजाद सिंह	सीसीएल करगली	23.07.2012 (पूर्वाह्न)

हस्ता./-अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/298--सक्षम अधिकारी, के.ओ.सु.बल नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.ओ.सु.बल के निम्नलिखित सहायक कमाण्डेंट (कार्य) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उप कमाण्डेंट (कार्य) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :--

नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	उप कमाण्डेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
श्री आलोक जोषी	बीआईओएम बचेली	14.07.2012 (पूर्वाह्न)

हस्ता./-अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/299--सक्षम अधिकारी, के.ओ.सु.बल नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.ओ.सु.बल के निम्नलिखित उप कमाण्डेंट (कार्य) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से कमाण्डेंट (कार्य) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	कमाण्डेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
सर्वश्री			
1.	वी. एस. बिरोले	बल मुख्यालय नई दिल्ली	03.09.2012 (पूर्वाह्न)
2.	ए. के. शर्मा	एनएलसी नैवेली	07.08.2012 (पूर्वाह्न)

हस्ता./-अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 17 सितम्बर 2012

सं. ई-38015(4)/3/एस/तकनीकी त्यागपत्र/2012/कार्मिक-1/307--सिविल सेवा परीक्षा, 2011 के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के

परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्री आदर्श सिधू, सहायक कमाण्डेंट (परिवीक्षा), केओसुबल, 26वां बैच, निसा हैदराबाद का तकनीकी त्याग-पत्र दिनांक 26.08.2012 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

हस्ता./-अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 18 सितम्बर 2012

सं. ई-16015/82/आई.बी.(एस.के.त्रि.)/09/कार्मिक-1/308--आसूचना ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन साल के लिए नियुक्ति के फलस्वरूप, केओसुब के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा उनके नाम के सामने दी गई तारीख व इकाई से पदभार छोड़ दिया है तथा उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से आसूचना ब्यूरो में पदभार ग्रहण कर लिया है :--

नाम	पद	केओसुब इकाई से पदभार छोड़ने का नाम की तिथि	आसूचना विभाग में पदभार ग्रहण करने की तारीख व पद
श्री एस.के. त्रिवेदी	वरिष्ठ कमाण्डेंट	21.08.2012 (अपराह्न)	22.08.2012 (पूर्वाह्न) अ.डी.डी./कार्य. आसूचना केओसुब मुख्यालय, ब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली

हस्ता./-अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110124, दिनांक 18 सितम्बर 2012

सं. 204-जी.ई.-I/13-2006--भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त/त्याग-पत्र दे चुके हैं :--

सर्वश्री/सुश्री

1. सुश्री मालाश्री प्रसाद अधिवार्षिकी दिनांक 31.08.2012 (अपराह्न)
2. के. सी. बेहरा अधिवार्षिकी दिनांक 31.08.2012 (अपराह्न)
3. बामन प्रधान अधिवार्षिकी दिनांक 31.08.2012 (अपराह्न)
4. टी. एस. सिभाप्पा अधिवार्षिकी दिनांक 31.08.2012 (अपराह्न)
5. जी. सी. सरकार अधिवार्षिकी दिनांक 31.08.2012 (अपराह्न)
6. सुश्री पुजा अवाना त्याग-पत्र दिनांक 13.08.2012 (अपराह्न)
7. राजा आर. त्याग-पत्र दिनांक 07.08.2012 (अपराह्न)

हस्ता./-अपठनीय  
सहा. नियंत्रक  
महालेखा परीक्षक (कार्मिक)

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 18 सितम्बर 2012

सं. का.स्था./ह व रोई IV पै/000150--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं:--

नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
श्री शशिकुमार आर.	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.08.2012 अपराह्न (अधिवर्षिता)

एस. विश्वनाथन  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2012

सं. ए-11025(i)/2/2008-डीसीएचएल/स्था-II--राष्ट्रपति, श्री जी. सुकुमारन नायर, को 24.08.2012 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, सेलम में पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये) के साथ 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन पर वरिष्ठ व्याख्याता (वस्त्र प्रौद्योगिकी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रीति कुमार

उप विकास आयुक्त (हथकरघा)

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 31 अगस्त 2012

सं. ए-19011/633/2012/स्था.ए.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. ए. जेड़ खान, को भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर में दिनांक 3.8.2012 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी के पद पर नियुक्ति की जाती है।

एस. एस. चौधरी

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

दिनांक 17 सितम्बर 2012

सं. ए-19012/350/2007/स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री माधवन सुमेश, संपादक को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 23.8.2012 (अपराह्न) से वरिष्ठ संपादक के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. एस. चौधरी

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-400 085, दिनांक 10 सितम्बर 2012

सं. केंद्र/स्थापना 2/3193--

अधिकारी का नाम	पद जिसका कार्यभार छोड़ा	कार्यभार छोड़ने की तिथि	कारण
श्री लक्ष्मीचंद दास	सुरक्षा अधिकारी	31.08.2012	अधिवर्षिता (अप.)

सी. गोपालकृष्णन  
उप स्थापना अधिकारी

सं. केंद्र/स्थापना 2/3194--

नाम	पद जिसका कार्यभार छोड़ा	कार्यभार छोड़ने की तिथि	कारण
श्रीमती ललिता कृष्णन	प्रशासनिक अधिकारी-II	31.05.2012	अधिवर्षिता (अप.)

सी. गोपालकृष्णन  
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-400 085, दिनांक 13 सितम्बर 2012

संदर्भ: पीडी/7(13)/2012/भर्ती-IV/(डीएस)/80910--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित विशिष्ट वैज्ञानिक अधिकारियों उच्चतर प्रशासकीय श्रेणी वेतनमान रु. 67,000--79,000/- को अतिविशिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर उच्चतर प्रशासकीय श्रेणी + वेतनमान रु. 75,500-80,000 में इसी अनुसंधान केंद्र में 12 जनवरी, 2012 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम
1.	डॉ. सुरेश कुमार अग्रवाल
2.	डॉ. सुरिन्द्र मोहन शर्मा
3.	डॉ. क. ल. रामकुमार

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ: पीडी/7(19)/2010/भर्ती-IV/(डीएस)/80916--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित विशिष्ट वैज्ञानिक अधिकारियों उच्चतर प्रशासकीय श्रेणी वेतनमान रु. 67,000--79,000 को अतिविशिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर उच्चतर प्रशासकीय श्रेणी+वेतनमान

रु. 75,500--80,000/- में इसी अनुसंधान केंद्र में 23 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम
1.	डॉ. सतीश चन्द्र गुप्ता
2.	श्री चन्द्रकान्त पीठवा
3.	श्री कैलाश नारायण माहुले
4.	डॉ. समरथ लाल चपलोट

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 17 सितम्बर 2012

संदर्भ: पीडी/11(1)/2012/भर्ती-III/2012/7789--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री एच. एल. जाधव, सहायक को दिनांक 23.07.2012 (पूर्वाह्न) से 03.09.2012 (अपराह्न) तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इस अनुसंधान केंद्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ: पीडी/11(1)/2011/भर्ती-III/12/7790--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती माधुरी के. दुबे, सहायक को दिनांक 30.07.2012 (पूर्वाह्न) से 10.09.2012 (अपराह्न) तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इसी अनुसंधान केंद्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-400085, दिनांक 18 सितम्बर 2012

सं. 93/अधि./स्था.1A/82378--निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम-4 पर दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पर दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है:--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार त्यागने का पद	पदत्याग करने की तारीख	घटना
1	2	3	4	5
1.	श्री कपिल गुप्ता	वै. अ./डी	19.07.2012 (पूर्वा.)	मूल नियमावली 56 (j) के अनुसार सेवानिवृत्ति

1	2	3	4	5
2.	श्रीमती निरुपमा निगम	वै. अ./एफ	07.08.2012 (पूर्वा.)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
3.	डॉ. एम. एम. चरयुलू	वै. अ./जी	31.08.2012 (अप.)	अधिवर्षिता
4.	डॉ. जोन टी. जोन	वै. अ./एच	31.08.2012 (अप.)	अधिवर्षिता
5.	श्री राधाकृष्णन भारतन	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.08.2012 (अप.)	अधिवर्षिता
6.	डॉ. एस. लक्ष्मीनरसिम्हन	वै. अ./एच	31.08.2012 (अप.)	अधिवर्षिता
7.	श्री एस. पी. रमनानी	वै. अ./एफ	22.08.2012 (पूर्वा.)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
8.	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	वै. अ./एच	31.08.2012 (अप.)	सेवा अवधि में विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
9.	श्री सी. एस. आर. प्रसाद	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.08.2012 (अप.)	सेवा अवधि में विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति

एस. जी. मार्कण्डेय  
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 7 सितंबर 2012

सं. 18/000/026/2010-ईआर/4178--परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 (1962 का 33) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और विभाग की दिनांक 29 जून 2012 की अधिसूचना सं. 18/000/026/2010-ईआर/2254 के अधिक्रमण में, राष्ट्रपति परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) को निम्नानुसार पुनर्गठित करते हैं:--

1. श्री एस. एस. बजाज - अध्यक्ष
2. श्री एस. दुराईसामी, अध्यक्ष, प्रचालनरत संयंत्रों हेतु संरक्षा पुनरीक्षा समिति (एसएआरसीओपी) - पदेन सदस्य
3. डॉ. जी. के. रथ, प्रोफेसर एवं प्रधान, विकिरण कैसर विज्ञान विभाग, एआईआईएमएस, नई दिल्ली - सदस्य
4. डॉ. के. वी. राघवन, पूर्व अध्यक्ष भर्ती एवं निर्धारण केन्द्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली - सदस्य
5. प्रो. देवांग वी. खाखर, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई - सदस्य

6. डॉ. हर्ष के. गुप्ता, - सदस्य  
सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,  
एनडीएमए भवन, ए1, सफदरजंग  
एनक्लेव, नई दिल्ली

7. श्री आर. भट्टाचार्य, - गैर सदस्य सचिव  
निदेशक, आईपीएसडी एवं आईटीएसडी,  
आईआरबी

ए. आनंदराज  
विशेष कार्य अधिकारी

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 13 सितम्बर 2012

सं. वीईसीसी/पदोन्नति(जुलाई)/2012/5172--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक  
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के  
निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी को इसी केन्द्र पर वेतन बैंड  
रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,700/- के वेतनमान में  
वैज्ञानिक अधिकारी (एफ) के पद पर काम करने के लिए जुलाई 11, 2012  
के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं:--

नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन
डॉ. कोशिक मुखर्जी	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	रु. 15,600--39,100/- (पीबी3) + रु. 7,600/-

एन. वी. एस. वी. प्रसाद  
प्रशासनिक अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 17 सितम्बर 2012

सं. भापासं/भर्ती/1(15)-त/2012/542--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड,  
श्री पी. मुरुगन, सहायक लेखा अधिकारी (पीबी-2, रु. 9,300--34,800/-  
तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/-), आइजीकार, कलपाक्कम को दिनांक  
7 जून, 2012 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु.  
9,300-34,800/- के वेतन बैंड एवं रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन में भारी  
पानी संयंत्र (तालचेर) में लेखा अधिकारी के रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. भापासं/भर्ती/4(14)/2011--राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केंद्रीय  
कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (कोटा/बड़ौदा/मणुगुरू/तालचेर) के  
निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई' (वेतन बैंड  
रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) को वैज्ञानिक  
अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ' के पद पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित  
दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय/संयंत्र में

रु. 37,400--67,000/- के वेतन बैंड + रु. 8,700/- के ग्रेड वेतन पर  
नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	भापासं/ भापासं	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री			
1.	नितेश मेहता	भापाबो (कें.का.)	01.07.2011
2.	जितेन्द्र डाहयाभाई परिख	भापासं (बड़ौदा)	01.07.2011
3.	अरविन्द कुमार मिर	भापासं (बड़ौदा)	01.07.2011
4.	दिनेश चन्द्र गुप्ता	भापासं (कोटा)	01.07.2011
5.	हनुमान सिंह यादव	भापासं (कोटा)	01.07.2011
6.	शेष नाथ सिंह	भापासं (कोटा)	01.07.2011
7.	अश्वनी कुमार बाण्डे	भापासं (कोटा)	01.07.2011
8.	बिजेन्द्र कुमार कोटिया	भापासं (कोटा)	01.07.2011
9.	हरेन्द्र कुमार शर्मा	भापासं (कोटा)	01.07.2011
10.	धीरेन्द्र नाथकर	भापासं (कोटा)	01.07.2011
11.	रफीक अहमद	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2011
12.	धर्मेश चन्द्र ओझा	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2011
13.	आलमूरि चंद्रशेखर	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2011
14.	के. एन. गोपाल कृष्णा	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2011
15.	तम्मा श्रीनिवास रेड्डी	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2011
16.	कृष्ण चन्द्र बेहरा	भापासं (तालचेर)	01.07.2011

उपरोक्त अधिकारियों ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न  
से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. पिल्लै  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. भापासं/भर्ती/4(13)/2011/545--राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केंद्रीय  
कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (हजीरा/बड़ौदा/मणुगुरू) के निम्नलिखित  
वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता 'एफ' वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/-  
+ ग्रेड वेतन रु. 8,700/- को वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता 'जी' के रूप  
में उसी वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन रु. 8,900/- में उनके नाम के सामने

दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय/संयंत्र में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	भापासं/भापासं	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री			
1.	बरमेश्वर नाथ उपाध्याय	भापाबो (कें.का.)	01.07.2011
2.	उदय प्रभाकर अवसरे	भापाबो (कें.का.)	01.07.2011
3.	दीपायन मजूमदार	भापाबो (कें.का.)	01.07.2011
4.	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	भापासं (हजीरा)	01.07.2011
5.	रंगासामी सुब्रामनीयम	भापाबो (हजीरा)	01.07.2011
6.	सोमसुंदरम थीरुवल्लवन	भापासं (बड़ौदा)	01.07.2011
7.	ए. भानु प्रकाश	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2011
8.	वेल्लारेत पुतन पुरष्कल राघवा पणिकर गोपिनाथा पणिकर	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2011
9.	एन. वी. मधुसूदन चारि	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2011

उपरोक्त अधिकारियों ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. पिल्लै  
प्रशासन अधिकारी-III

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2012

सं. ए-39013/01/2012-स्था.2--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के तहत, श्रीमती मीना लाला, महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के 20.09.2012 अपराह्न से प्रभावी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी नोटिस को स्वीकार करते हैं। श्रीमती मीना लाला, अनुभाग अधिकारी, महानिदेशक, नागर विमानन के कार्यालय को 20.09.2012 अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाता है।

जे. मिंज  
उप निदेशक (प्रशासन)

जल संसाधन मंत्रालय

(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

फरीदाबाद-121001, दिनांक 19 सितम्बर 2012

सं. 20-58/2012 अनु. स्थापना--विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-क, राजपत्रित) की सिफारिश के आधार पर श्री राकेश गुप्ता, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मुख्यालय, फरीदाबाद

को वेतन बैंड-3, व वेतनमान रुपये 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान पर हिन्दी सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में 11.01.2012 (पूर्वाह्न) से पदोन्नत किया जाता है।

उपरोक्त अधिकारी वर्तमान ग्रेड में कार्यग्रहण करने की तिथि (11.01.2012) से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है।

पी. सी. राणा  
प्रशासनिक अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2012

सं. कर/दिल्ली/560(5)/2011/20127--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	087141	मैसर्स ए. एण्ड ए. मर्कैन्टायल लिमिटेड
2.	210336	मैसर्स अल्फाबेट मीडिया (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
3.	095539	मैसर्स अमझारा ओवरसीज लिमिटेड
4.	123136	मैसर्स एन्जेल इन्टरटेन्मेन्ट एण्ड हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड
5.	208800	मैसर्स एनक्स मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	208326	मैसर्स अन्सुल हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड
7.	156511	मैसर्स अन्तरेस हॉलीडेज प्राईवेट लिमिटेड
8.	170451	मैसर्स एक्यू कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
9.	153120	मैसर्स ऐरो ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	030047	मैसर्स आशिना एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	178888	मैसर्स अस्तारा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
12.	121225	मैसर्स एटीसीएल कन्टेनर लाईन (दिल्ली) प्राईवेट लिमिटेड
13.	176349	मैसर्स एटीट्यूड हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
14.	209589	मैसर्स एवीएस हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	43.	128352	मैसर्स जय जिनेन्द्रा इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	178877	मैसर्स बेलायर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	44.	192995	मैसर्स जन्त भूमि सप्लाय चैन प्राईवेट लिमिटेड
16.	102123	मैसर्स बीटा एजुटेक लिमिटेड	45.	189564	मैसर्स जेवीएम लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	181098	मैसर्स भाई पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	46.	127333	मैसर्स कपिल आयरन प्राईवेट लिमिटेड
18.	132450	मैसर्स भूसिता ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	47.	087762	मैसर्स केबीएन टेक प्राईवेट लिमिटेड
19.	220974	मैसर्स बिग डैडी एडवरटाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड	48.	055948	मैसर्स केदार चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	228473	मैसर्स बोलक्रिस इन्फो प्राईवेट लिमिटेड	49.	044759	मैसर्स कैसेलेक ल्यूमिनेरिस प्राईवेट लिमिटेड
21.	050240	मैसर्स सी. जे. एच. इन्वेस्टमेंट्स एण्ड लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	50.	198842	मैसर्स किटैटेक टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
22.	036551	मैसर्स कैम्ब्रीज ब्रॉडबैंड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	51.	034761	मैसर्स कॉनसोरटीयम लॉजिस्टिक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
23.	207072	मैसर्स कैरिअरजील एजु प्राईवेट लिमिटेड	52.	154660	मैसर्स लाज आईटी पार्क प्राईवेट लिमिटेड
24.	184413	मैसर्स चेरविल फार्मा प्राईवेट लिमिटेड	53.	154734	मैसर्स लाज टैक्सटाईल पार्क प्राईवेट लिमिटेड
25.	216782	मैसर्स चेतना नेटवर्क सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	54.	174557	मैसर्स लॉन्च ऑफसोर सर्विसेज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
26.	171935	मैसर्स कम्पीटेंट साइबरटेक प्राईवेट लिमिटेड	55.	114770	मैसर्स लाजोर प्रिन्ट एक्सिस प्राईवेट लिमिटेड
27.	167237	मैसर्स कन्सेप्ट सॉफटेक प्राईवेट लिमिटेड	56.	012972	मैसर्स लीप लिफ्टिंग इक्विपमेंट एण्ड एसेसरीज प्राईवेट लिमिटेड
28.	106251	मैसर्स क्रॉसबो पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड	57.	179442	मैसर्स लेटचफोर्ड कॉरपोरेट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	005142	मैसर्स डैस फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड	58.	197994	मैसर्स लाईफवन एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	031714	मैसर्स डेक्सटर कैमिकल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	59.	205088	मैसर्स मैग्नम सेल्यूलर प्राईवेट लिमिटेड
31.	158190	मैसर्स डबल स्टार बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	60.	188162	मैसर्स मेसकॉक्स एप्लाइन्सेस प्राईवेट लिमिटेड
32.	105345	मैसर्स इ-वीजन पोर्टल्स प्राईवेट लिमिटेड	61.	118002	मैसर्स एमजी प्रैसमैन मीडिया एण्ड कम्प्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
33.	108510	मैसर्स जी 8 नेट प्राईवेट लिमिटेड	62.	117752	मैसर्स मोक्ष एपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	034115	मैसर्स गेयटी टूर्स एण्ड ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड	63.	163353	मैसर्स एन. ए. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	097575	मैसर्स गैलेक्सी रेन्ट ए टेल प्राईवेट लिमिटेड	64.	182144	मैसर्स नेहाज ज्वैलफ्लेम प्राईवेट लिमिटेड
36.	169093	मैसर्स जेनयून फोरजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	65.	168056	मैसर्स ओएसिस इन्फोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
37.	183233	मैसर्स गोआचिक डिजायन एण्ड मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड	66.	044500	मैसर्स प्राईम ब्रेवरेज इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	214537	मैसर्स हल्दिया सिन्थैटिक रबर लिमिटेड	67.	184832	मैसर्स रहेजा जल विद्युत ऊर्जा प्राईवेट लिमिटेड
39.	130244	मैसर्स हिमपैक एडहैसिव प्राईवेट लिमिटेड	68.	184947	मैसर्स रहेजा रिनिवेबल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
40.	039453	मैसर्स इन्टेलैक्टकैप टेक्नोलॉजी कन्सलटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	69.	114429	मैसर्स राही कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	161108	मैसर्स इनोवेटिव ब्रान्ड आइडियास प्राईवेट लिमिटेड	70.	099107	मैसर्स रजतबाला निटर्स एण्ड फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	194106	मैसर्स आइएसटीएस सॉफ्टवेयर कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड			



1	2	3
71.	042139	मैसर्स रीजेन्ट फण्ड्स मैनेजमेन्ट एण्ड कन्सलटेंट प्राइवेट लिमिटेड
72.	163351	मैसर्स आरकेए एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
73.	038280	मैसर्स एस. बी. कैंड एण्ड ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
74.	043081	मैसर्स एस. के. दास कन्सलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
75.	144597	मैसर्स एस. एस. वी. ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
76.	181007	मैसर्स एस. पी. एक्वाटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
77.	008225	मैसर्स सबिकही एण्ड चौधरी आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
78.	172013	मैसर्स सहेज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
79.	116407	मैसर्स सक्षम जर्नीस प्राइवेट लिमिटेड
80.	190505	मैसर्स सैम एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड
81.	041642	मैसर्स सैथिन्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
82.	176541	मैसर्स सार्स एजुकॉम प्राइवेट लिमिटेड
83.	169095	मैसर्स सत्य श्री राधे फैंब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
84.	178212	मैसर्स एस. बी. पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
85.	186650	मैसर्स सीज स्टेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
86.	113366	मैसर्स सेन्सो रेस्टोरेन्ट एण्ड बार (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
87.	116484	मैसर्स श्रीजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
88.	047470	मैसर्स सिम्पी लीजिंग एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
89.	154658	मैसर्स स्कोडा हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
90.	146369	मैसर्स सुलो सैल्यूट एशिया प्राइवेट लिमिटेड
91.	113590	मैसर्स स्टैप्पी इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
92.	036493	मैसर्स सूक्रेक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
93.	126749	मैसर्स सम सॉफटेक प्राइवेट लिमिटेड
94.	057898	मैसर्स सन्मती फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
95.	050774	मैसर्स सूरूरा बिजनेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
96.	101488	मैसर्स टेस्ट राइट इन्टरनेशनल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
97.	115348	मैसर्स थीम पैक प्राइवेट लिमिटेड
98.	182807	मैसर्स अल्टीकॉम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
99.	167238	मैसर्स अल्टीमेट फैबटेक्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
100.	189954	मैसर्स यूनीस्टैड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
101.	192318	मैसर्स वैभवी डायमण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
102.	036470	मैसर्स वर्मा एण्ड जिन्दल प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
103.	180902	मैसर्स विडैन्जेल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
104.	172293	मैसर्स डब्ल्यू. वी. टेक्नोलॉजिस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
105.	208398	मैसर्स वेवसिस नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
106.	182414	मैसर्स डब्ल्यूबीआई टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड
107.	174496	मैसर्स वेबोरबिट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 19 सितम्बर 2012

सं. आर.ओ.सी./560(5)/3550(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम सं.
1	2	3
1.	15-011320	मैसर्स सिन्धुजा ईस्टेट डेवलपर्स एण्डफाइनेन्शियल सोल्यूशन्स लिमिटेड
2.	15-011321	मैसर्स जगन्नाथ लेमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	15-011325	मैसर्स सृष्टि लिआएसन प्राइवेट लिमिटेड
4.	15-011327	मैसर्स के. वी. डेवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
5.	15-011329	मैसर्स एलजी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
6.	15-011332	मैसर्स बिस्वा फ्युचर सिक्युरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
7.	15-011344	मैसर्स मेका हॉक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
8.	15-011345	मैसर्स मोहोदोधी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	15-011347	मैसर्स आर. बी. इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
10.	15-011348	मैसर्स नन्दा गोपाल कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
11.	15-011353	मैसर्स जाना कल्याण बेस्ट कॉमर्शियल प्रोसेस एण्ड सर्विसेस सिस्टम्स लिमिटेड	41.	15-011461	मैसर्स सारा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	15-011354	मैसर्स उत्कल टावर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	42.	15-011469	मैसर्स एस. डी. सप्लाई एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
13.	15-011355	मैसर्स बेसिक इन्स्टीट्यूट्स प्राईवेट लिमिटेड	43.	15-011471	मैसर्स एबीएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
14.	15-011357	मैसर्स लाईव बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	44.	15-011475	मैसर्स प्रांज्या हैथकेयर लिमिटेड
15.	15-011358	मैसर्स माँ दुर्गा लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	45.	15-011476	मैसर्स जेस्ट इन्फ्राबिल्ट प्राईवेट लिमिटेड
16.	15-011372	मैसर्स पोजिटिव रवोल्यूशन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	46.	15-011482	मैसर्स बिन्दु टेलीसर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
17.	15-011374	मैसर्स मैट्रिक्स इन्फो सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	47.	15-011486	मैसर्स लीवन सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	15-011377	मैसर्स आरचस टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड	48.	15-011488	मैसर्स एमआरजीएल मिनरल्स एण्ड लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-011387	मैसर्स साई सूधा ईस्टकोन प्राईवेट लिमिटेड	49.	15-011683	मैसर्स सिस्टम्स वर्चुअल सोफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	15-011388	मैसर्स बी. बी. फाईनेन्शियल प्राईवेट लिमिटेड	50.	15-011686	मैसर्स ईगल्स इन्फ्रा डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	15-011394	मैसर्स आस्था स्पाईसेस एण्ड फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	51.	15-011687	मैसर्स फाहरेटेक सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	15-011401	मैसर्स हैप्पी हाई डिस्टिलरीस प्राईवेट लिमिटेड	52.	15-011691	मैसर्स त्रुप्टिकर इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
23.	15-011409	मैसर्स महानदी इन्फ्रा-डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	53.	15-011700	मैसर्स श्रीवालिस लैण्ड्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	15-011410	मैसर्स साई सम्भव इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	54.	15-011702	मैसर्स फैंब इण्डिया प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	15-011411	मैसर्स साई सधा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	55.	15-011703	मैसर्स कोहिनूर ऑनलाईन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
26.	15-011414	मैसर्स मास फ्यूचर फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	56.	15-011705	मैसर्स एस. एस. बूल्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	15-011420	मैसर्स ड्रीमलैण्ड रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड	57.	15-011706	मैसर्स इरोमा एग्री वेन्चर्स इण्डिया लिमिटेड
28.	15-011421	मैसर्स श्री सरला एन्टरप्राईसेस प्राईवेट लिमिटेड	सी. के. दास सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार उड़ीसा		
29.	15-011425	मैसर्स समृद्धि आऊटसोर्स कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड			
30.	15-011427	मैसर्स सिक्का 4यू प्राईवेट लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में कटक-753014, दिनांक 21 सितम्बर 2012		
31.	15-011428	मैसर्स प्रोफिटलाईन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड			
32.	15-011430	मैसर्स अग्नी ईस्टकोन प्राईवेट लिमिटेड	सं. आर.ओ.सी./560(5)/3551--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-		
33.	15-011436	मैसर्स अभिषेक कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड			
34.	15-011437	मैसर्स पी. के. इन्फ्रा एण्ड पॉवर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	क्र. कम्पनी कम्पनी का नाम सं. सं.		
35.	15-011439	मैसर्स झयोन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड			
36.	15-011440	मैसर्स ए. बी. वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड	1	2	3
37.	15-011442	मैसर्स नियो विन्साईट रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड	1.	15-008733	मैसर्स पियूष इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड
38.	15-011444	मैसर्स आईकोन इलैक्ट्रीकल एप्लायन्सेस प्राईवेट लिमिटेड	2.	15-011716	मैसर्स प्राऊड मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
39.	15-011450	मैसर्स सम्पत्ति इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	3.	15-011732	मैसर्स महानदी वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	15-011459	मैसर्स एस. पी. इन्फ्रा डेवलपमेन्ट एन्टरप्राइज लिमिटेड			

1	2	3
4. 15-011735	मैसर्स ओरसेल वायरलेस इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	
5. 15-011770	मैसर्स वेफर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	
6. 15-011782	मैसर्स मैक्स इन्फ्रा क्रिएटर एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	
7. 15-011789	मैसर्स बलियान कोन-टेक प्राईवेट लिमिटेड	
8. 15-011790	मैसर्स ऊषा इन्फोटेनमेन्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	
9. 15-011797	मैसर्स हरी प्लास्टेक प्राईवेट लिमिटेड	
10. 15-011803	मैसर्स ओडीसा डेयरी प्राईवेट लिमिटेड	
11. 15-011807	मैसर्स नेक्जेन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	
12. 15-011809	मैसर्स 7 माइल्स प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
13. 15-011811	मैसर्स साईक्रा होम्स प्राईवेट लिमिटेड	
14. 15-011814	मैसर्स एन. एम. रिसॉर्सेस मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	
15. 15-011816	मैसर्स श्रीराम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
16. 15-011822	मैसर्स लालझर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	
17. 15-011824	मैसर्स त्रिक वेन्जेन्स फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	
18. 15-011826	मैसर्स चमत्कार होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	
19. 15-011827	मैसर्स वी. आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
20. 15-011832	मैसर्स फैसिल सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
21. 15-011852	मैसर्स अक्सरा एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	
22. 15-011858	मैसर्स गौरीशंकर फायर एण्ड सिक्युरिटी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	
23. 15-011860	मैसर्स स्माईल रिटेल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	
24. 15-011870	मैसर्स भरोसा ईस्टेट एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	
25. 15-011872	मैसर्स भरोसा मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	

1	2	3
26. 15-011875	मैसर्स डी. पी. एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	
27. 15-011879	मैसर्स डेक्स एग्रो प्राईवेट लिमिटेड	
28. 15-011883	मैसर्स केरस (इण्डिया) ट्रेडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	
29. 15-011887	मैसर्स सोनपुर आर्ट टैक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	
30. 15-011888	मैसर्स श्री राम ओडीसा आईकेट हैण्डलूम प्राईवेट लिमिटेड	
31. 15-011889	मैसर्स सोनपुर टेक्नो इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	
32. 15-011891	मैसर्स फस्ट स्टेप इन्फ्राटेक सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
33. 15-011893	मैसर्स सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्रावाइडर टीम्स प्राईवेट लिमिटेड	
34. 15-011894	मैसर्स 141 एवेन्यू एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	
35. 15-011897	मैसर्स सिस्टेमैटिक टेक्नो मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	
36. 15-011898	मैसर्स द्रोपदी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	
37. 15-011914	मैसर्स चन्द्रमा मार्केटिंग एण्ड टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	
38. 15-011915	मैसर्स पी स्कोयर एडवेन्चर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	
39. 15-011916	मैसर्स आर. के. मोहन्ती कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	
40. 15-011923	मैसर्स रेन ट्री होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	
41. 15-011928	मैसर्स कोनमोर आईटी एण्ड बीपीटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	
42. 15-011865	मैसर्स प्रजापति एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	
43. 15-011906	मैसर्स ऐम. स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	
44. 15-011932	मैसर्स ट्विन सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	
45. 15-011934	मैसर्स मैक्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	

सी. के. दास  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 14th September 2012

No. DP/Pers.I/2012/0076/11/8/2012—The President is pleased to appoint the following Sr. Public Prosecutors. CBI as Dy. Legal Adviser in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment, on promotion, with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Date of Appointment as Dy. Legal Adviser
	S/Shri	
1.	R.K. Saini	24.05.2012
2.	R.B. Sharma	25.05.2012
3.	Ram Murti Kushwaha	28.05.2012
4.	R. Soundarajan	01.06.2012
5.	Akhilesh Kumar Mishra	29.05.2012
6.	D.R. Saraswati	25.05.2012
7.	Ram Lal Negi	31.05.2012
8.	Rabindra Nath Dash	13.08.2012

M. SACHDEV  
Admin. Officer (Pers.)

The 17th September 2012

No. DP/Pers.I/2012/077/3/50/91—Shri D.R. Saraswati relinquished charge of the post of Dy. Legal Adviser, CBI with effect from 31.08.2012 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

M. SACHDEV  
Admin. Officer (Pers.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-03, the 3rd September 2012

## ORDER

No. O.II-3837/10-Pers-MOs—In pursuance of Sub-Rule (1) of Rule 5 of Central Civil Services (Temporary Service) Rules 1965, the President hereby gives notice to Dr. Narendra Kumar Vaishnawa, MO (IRLA : 8305) of Composite Hospital, CRPF, Bilaspur that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date of publication of this order in the Official Gazette.

By order and in the name of the President.

B.S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

No. D.I.6/2012-Pers-DA-8—Consequent on his selection for appointment to the post of Assistant Inspector General

(AIG) in SPG on deputation basis for a period of six years vide Cabinet Secretariat, GoI order No. A-12011/04/2011-SS dated 02.05.2012, services in respect of Shri M.S. Shekhawat, 2I/C (IRLA-4697) of 40 Bn., CRPF is placed at the disposal of SPG with effect from 08.08.2012 (AN).

B.S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

No. D.I.4/2012-Pers-DA-8—Consequent on his selection for appointment to the post of Deputy General Manager (Security) in ITPO (India Trade Promotion Organization) on deputation basis for a period of three years vide Officer on Special Duty (Admn.) ITPO Letter No. 4-ITPO(1)/E-I/2011 dated 09.08.2012, services in respect of Shri Rajendra Singh Shekhawat, 2I/C (IRLA-4190) of 1st Signal Bn., CRPF is placed at the disposal of ITPO with effect from 03.09.2012 (AN).

B.S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

The 18th September 2012

No. O.II.3872/11-Pers-MOs—Consequent on acceptance of her resignation by the competent authority, Dr. Divya K. (IRLA-8638), Medical Officer, 100 RAF Bn., CRPF relinquished the charge of her post on the afternoon of 11.08.2012. Accordingly, her name stands deleted from the rolls of the Force w.e.f. 11.08.2012 (AN).

B.S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

No. O.II.3653/2012-Pers-DA-I—The Govt. of India have appointed Shri Vivek Dube, IPS (AP : 81) as Additional Director General (ADG) in CRPF on deputation basis in the HAG pay scale of Rs. 67,000—79,000/- for a period of four years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer, accordingly took over the charge of the post of Additional Director General, CRPF on the forenoon of 14.09.2012.

B.S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

The 19th September 2012

No. O.II.7637/2012-Pers-(A/C)—Consequent on his selection for Indian Police Service through Civil Service Examination-2011 and acceptance of technical resignation from service, Shri Hemraj Meena, Asstt. Commandant (IRLA-7637) of 73 Bn., CRPF relinquished the charge of his post on the forenoon of 30.08.2012. Accordingly, he has been

struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 30.08.2012 (FN).

B.S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

# DIRECTORATE OF COORDINATION

## POLICE WIRELESS

New Delhi-3, the 11th September 2012

No. A. 12012/2/EAD(CY)/2011-Admn.II—Shri K. Chellathurai, Cipher Assistant of this Directorate has been promoted to the post of Extra Assistant Director (Cy.) in the pay scale of Rs. 9,300—34,800/- Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 17.07.2012.

P.K. SINGHAL  
Director

## DIRECTOR GENERAL

### CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 11th September 2012

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers.I/297—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the competent authority has conferred the local rank of Assistant Commandant (Exe) to the following Inspectors (Exe) of CISF, with effect from the date noted against each:—

Sl. No.	Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as Assistant Commandant (Local Rank)
S/Shri			
1.	K. Sashi Kumar	SHEP Salal	05.07.2012 (FN)
2.	P.N. Nair	IOC Barauni	16.07.2012 (FN)
3.	Ramesh Chand	CCL Kargali	04.08.2012 (FN)
4.	Azad Singh	CCL Kargali	23.07.2012 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers.I/298—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the competent authority has conferred the local rank of Dy. Commandant to the following Assistant Commandants of CISF, with effect from the date noted against each:—

Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as Dy. Commandant (Local Rank)
Shri Alok Joshi	BIOM Bacheli	14.07.2012 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers.I/299—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the competent authority has conferred the local rank of Commandant to the following Deputy Commandants of CISF, with effect from the date noted against each:—

Sl. No.	Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as Commandant (Local Rank)
S/Shri			
1.	V.S. Birole	FHQRS, New Delhi	03.09.2012 (FN)
2.	A.K. Sharma	NLC, Neyveli	07.08.2012 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

The 17th September 2012

No. E-38015(4)/3/AS/Tech Resig/2012/Pers.I/307—Consequent upon appointment to the Indian Police Service on the basis of Civil Services Examination, 2011, the President is pleased to accept the technical resignation of Shri Adarsh Sidhu, Assistant Commandant (Probationer) CISF, 26th Batch, NISA Hyderabad with effect from 26.08.2012 (AN)

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

The 18th September 2012

No. E-16015/82/IB(SKD)/09/Pers-I/308—Consequent upon repatriation from deputation, the following officer has assumed the charge of Senior Commandant on promotion and taken on the strength of CISF Hqrs/Unit with effect from the date mentioned against his name:—

Name	Rank	Name of the Department where officer was on deputation.	The Officer taken on the strength of CISF Hqrs/Unit
Shri S.K. Trivedi	Sr. Comdt.	IB, HQ, New Delhi	FHQRS New Delhi w.e.f. 14.08.2012 (FN) (He will draw pay against the vacant post of DIG/Fire)

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

## INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110124, the 18th September 2012

No. 4903-GE-I/13-2006—The following IA&AS officers have Retired on superannuation/Resigned

from Government service from the date shown against their names:—

S/Shri	
1. Ms. Malashri Prasad	Retired on superannuation wef. 31.08.2012 (AN)
2. K.C. Behera	Retired on superannuation wef. 31.08.2012 (AN)
3. Baman Pradhan	Retired on superannuation wef. 31.08.2012 (AN)
4. T.S. Shivappa	Retired on superannuation wef. 31.08.2012 (AN)
5. G.C. Sarkar	Retired on superannuation wef. 31.08.2012 (AN)
6. Ms. Pooja Awana	Resigned wef. 13.08.2012 (AN)
7. Raja R.	Resigned wef. 07.08.2012 (AN)

Sd/- ILLEGIBLE  
Asstt. Comptr. &  
Auditor General (P)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL  
(A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 18th September 2012

No. O.E./E&C/EIVP/000150—The following officials of IA&AD retired from service:—

Name	Designation	Date of Retirement
Sri Sasikumar R.	Asstt. Accounts officer Main Office, Thiruvananthapuram	31.08.2012 (AN) Superannuation

S. VISHWANATHAN  
Sr. Dy. Accountant General (Admin)

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
FOR HANDLOOMS)

New Delhi, the 10th September 2012

No. A-11025(i)/2/2008/DCH/E.II.—The President is pleased is to appoint Shri G. Sukumaran Nair as Senior Lecturer (Textile Technology) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) Plus Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Salem w.e.f. 24.08.2012 (Afternoon) until further orders.

PRITI KUMAR  
Dy. Development Commisisoner  
(Handlooms)

MINISTRY OF MINES

(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 31st August 2012

No. A-19011/633/2012-Estt.A/154—On the recommendation of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Dr. Arshad Zaman Khan,

to the post of Senior Mining Geologist in Indian Bureau of Mines, Ajmer w.e.f. 03.08.2012 (FN).

S.S. CHAUDHARY  
Senior Admin. Officer  
For Controller General

The 17th September 2012

No. A-19012/350/2007-Estt. A/451—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri Madhavan Sumesh, Editor, is promoted to the post of Senior Editor in Indian Bureau of Mines, Nagpur, w.e.f. 23.08.2012 (FN).

S.S. CHAUDHARY  
Senior Admin. Officer  
For Controller General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 10th September 2012

No. Cadre/Estt.II/3193—

Name	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
Sh. Laxmichand Dass	Security Officer	31.08.2012	Superannuation (AN)

C. GOPALAKRISHNAN  
Dy. Establishment Officer

No. Cadre/Estt.II/3194—

Name	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
Smt. Lalitha Krishnan	Administrative Officer-II	31.05.2012	Superannuation (AN)

C. GOPALAKRISHNAN  
Dy. Establishment Officer

Mumbai-85, the 13th September 2012

No. PD/7(13)/2012-R-IV/(DS)/80910—The President is pleased to appoint the undermentioned Outstanding Scientists, Higher Administrative Grade, Scale Rs. 67,000—79,000/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Distinguished Scientist in HAG+Scale Rs. 75,500—80,000/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of January 12, 2012, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer
1.	Dr. Suresh Kumar Aggarwal
2.	Dr. Surinder Mohan Sharma
3.	Dr. K. L. Ramakumar

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(19)/2010-R-IV/(DS)/80916—The President is pleased to appoint the undermentioned Outstanding Scientists, Higher Administrative Grade, Scale Rs. 67,000—79,000/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Distinguished Scientist in HAG+Scale Rs. 75,500—80,000/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of August 23, 2010, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name
1.	Dr. Satish Chander Gupta
2.	Sh. Chandrakant Pithawa
3.	Sh. Kailash Narayan Mahule
4.	Dr. Samrath Lal Chaplot

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

The 17th September 2012

No. PD/11(1)/2012-R-III/2012/7789—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri H. L. Jadhav, Assistant as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 23.07.2012 (FN) to 03.09.2012 (AN).

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

No. PD/11(1)/2011-R-III/2012/7790—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Madhuri K. Dubey, Assistant as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 30.07.2012 (FN) to 10.09.2012 (AN).

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

Mumbai-400085, the 18th September 2012

No. 93/Noti./Est.IA/82378—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sl. No.	Name	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
1	2	3	4	5
1.	Sh. Kapil Gupta	SO/D	19.07.2012 (FN)	Retired under FR 56(j)

1	2	3	4	5
2.	Smt. Nirupama Nigam	SO/F	07.08.2012 (FN)	Voluntary Retirement
3.	Dr. M. M. Charyulu	SO/G	31.08.2012 (AN)	Superannuation
4.	Dr. John T. John	SO/H	31.08.2012 (AN)	Superannuation
5.	Sh. Radhakrishnan Bharathan	OS	31.08.2012 (AN)	Superannuation
6.	Dr. S. Lakshminarasimhan	SO/H	31.08.2012 (AN)	Superannuation
7.	Sh. S. P. Ramnani	SO/F	22.08.2012 (FN)	Voluntary Retirement
8.	Sh. Pramod Kumar Gupta	SO/H	31.08.2012 (AN)	Retirement after extension of service
9.	Sh. C. S. R. Prasad	Outstanding Scientist	31.08.2012 (AN)	Retirement after extension of service

S. G. MARKANDEYA  
Controller

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 7th September 2012

No. 18/000/026/2010-ER/4178—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and in supersession of this Department's Notification No. 18/000/026/2010-ER/2254 dated 29 June, 2012, the President is pleased to reconstitute the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) as under :—

1.	Sh. S. S. Bajaj	Chairman
2.	Sh. S. Duraisamy, Chairman, Safety Review Committee for Operating Plants (SARCOP)	Ex-Officio Member
3.	Dr. G. K. Rath, Professor & Head, Department of Radiation Oncology, AIIMS, New Delhi	Member
4.	Dr. K. V. Raghavan, Former Chairman Recruitment & Assessment Centre, Defence Research & Development Organisation, Ministry of Defence, New Delhi	Member
5.	Prof. Devang V. Khakhar Director, Indian Institute of Technology, Mumbai	Member
6.	Dr. Harsh K. Gupta, Member, National Disaster Management Authority, NDMA Bhavan, A 1, Safdarjang Enclave, New Delhi	Member
7.	Sh. R. Bhattacharya, Director, IPSD & ITSD, AERB	Non-Member Secretary

A. ANANDARAJ  
Officer on Special Duty

## VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700064, the 13th September 2012

No. VECC/Prom (July)/2012/5172—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the Grade of Scientific Officer (F) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay of Rs. 8,700/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 11, 2012 (FN) until further orders :—

Name	Present Post	P.B. + G.P
Dr. Kaushik Mukherjee	Scientific Officer (E)	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Rs. 7,600/-

N. V. S. V. PRASAD  
Administrative Officer-III

## HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 17th September 2012

No. HWB/R/1(15)-Tal/2012/542—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri P. Murugan, Assistant Accounts Officer, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- IGCAR, Kalpakkam to officiate as Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- in Heavy Water Plant (Talcher) from the forenoon of 7th June, 2012 until further orders.

K. S. PILLAI  
Administrative Officer-III

No. HWB/R/4(14)/2012/544—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade 'E' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- of Heavy Water Board (Central Office)/Heavy Water Plant (Kota/Baroda/Manuguru/Talcher) as Scientific Officer/Engineer Grade 'F' in the Pay Band with Grade Pay of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of the date mentioned against each in the same Plant in a temporary capacity until further orders :—

Sl. No.	Name	Unit	Date of Appointment to the Promoted Grade
1	2	3	4
S/Shri			
1.	Nitesh Mehta	HWB (C.O.)	01.07.2011
2.	Jitendra Dahyabhai Parikh	HWP (Baroda)	01.07.2011
3.	Arvind Kumar Mishra	HWP (Baroda)	01.07.2011
4.	Dinesh Chandra Gupta	HWP (Kota)	01.07.2011
5.	Hanuman Singh Yadav	HWP (Kota)	01.07.2011
6.	Shesh Nath Singh	HWP (Kota)	01.07.2011
7.	Ashwani Kumar Bandey	HWP (Kota)	01.07.2011
8.	Vijendra Kumar Kotia	HWP (Kota)	01.07.2011
9.	Harendra Kumar Sharma	HWP (Kota)	01.07.2011

1	2	3	4
(S/Shri)			
10.	Dhirendra Nathkar	HWP (Kota)	01.07.2011
11.	Rafique Ahmed	HWP (Manuguru)	01.07.2011
12.	Dharmesh Chandra Ojha	HWP (Manuguru)	01.07.2011
13.	Alamuri Chandra Sekhar	HWP (Manuguru)	01.07.2011
14.	K. N. Gopala Krishna	HWP (Manuguru)	01.07.2011
15.	Tamma Srinivasa Reddy	HWP (Manuguru)	01.07.2011
16.	Krishna Chandra Behera	HWP (Talcher)	01.07.2011

The above Officers relinquished charge of the lower post held by them on the forenoon of the date mentioned against each.

K. S. PILLAI  
Administrative Officer-III

No. HWB/R/4(13)/2011/545—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade 'F' in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- of Heavy Water Board (Central Office)/Heavy Water Plant (Hazira/Baroda/Manuguru) as Scientific Officer/Engineer Grade 'G' in the same Pay Band with Grade Pay of Rs. 8,900/- with effect from the forenoon of the date mentioned against each in the same Office/Plant until further orders :—

Sl. No.	Name	Unit	Date of Appointment to the Promoted Grade
S/Shri			
1.	Barneshwar Nath Upadhyay	HWB (C.O.)	01.07.2011
2.	Uday Prabhakar Awasare	HWB (C.O.)	01.07.2011
3.	Deepayan Majumdar	HWB (C.O.)	01.07.2011
4.	Rajendra Prasad Gupta	HWP (Hazira)	01.07.2011
5.	Rangasamy Subramaniam	HWP (Hazira)	01.07.2011
6.	Somasundaram Thirulallavan	HWP (Baroda)	01.07.2011
7.	A. Bhanu Prakash	HWP (Manuguru)	01.07.2011
8.	Vellarethu Puthan Purackal Raghava Panicker Gopinadha Paniker	HWP (Manuguru)	01.07.2011
9.	N. V. Madhusudan Chary	HWP (Manuguru)	01.07.2011

The above mentioned Officers have relinquished charge of the lower post held by them on the forenoon of the date mentioned against each.

K. S. PILLAI  
Administrative Officer-III



## DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 19th September 2012

No. A-39013/01/2012-E.II—The President is pleased to accept the notice under Rule 48 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 of Smt. Meena Lalla, Section Officer in the Office of the Director General of Civil Aviation regarding voluntary retirement with effect from the afternoon of 20.09.2012. Smt. Meena Lalla, Section Officer in the Office of the Director General of Civil Aviation stands relieved of her duties with effect from the afternoon of 20.09.2012.

J. MINZ  
Dy. Director of Administration

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

## (CENTRAL GROUND WATER BOARD)

Faridabad-121001, the 19th September 2012

No. 20-58/2012-Min.Estt.7183—On the recommendation of the DPC (Group 'A' Gazetted) Sh. Rakesh Gupta, Senior Hindi Translator, CGWB, Faridabad has been promoted to the post of Assistant Director (Official Language) (Group 'A' Gazetted) in the Pay Band-3 and corresponding Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- per month plus usual allowances applicable in Central Ground Water Board w.e.f. 11.01.2012 (FN).

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the competent authority at his discretion.

P. C. RANA  
Administrative Officer

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

New Delhi, the 18th September 2012

No. RoC/Delhi/560(5)/2011/20127—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Cin No.	Name of the Company
1	2	3
1.	087141	M/s. A and A Mercantile Limited
2.	210336	M/s. Alphabet Media (India) Private Limited

1	2	3
3.	095539	M/s. Amjhara Overseas Limited
4.	123136	M/s. Angel Entertainment and Hospitality Private Limited
5.	208800	M/s. Anix Management Consultants Private Limited
6.	208326	M/s. Anshul Hospitality Private Limited
7.	156511	M/s. Antares Holidays Private Limited
8.	170451	M/s. AQ Consultancy Services Private Limited
9.	153120	M/s. Arrow Tradelinks Private Limited
10.	030047	M/s. Ashina Exports Private Limited
11.	178888	M/s. Astara Trading Private Limited
12.	121225	M/s. ATCL Container Line (Delhi) Private Limited
13.	176349	M/s. Attitude Health Care Private Limited
14.	209589	M/s. AVS Healthcare Private Limited
15.	178877	M/s. Belair Trading Private Limited
16.	102123	M/s. Beta Edutech Limited
17.	181098	M/s. Bhai Power Infrastructures Private Limited
18.	132450	M/s. Bhushita Automobiles Private Limited
19.	220974	M/s. Big Daddy Advertising Private Limited
20.	228473	M/s. Bolkris Info Private Limited
21.	050240	M/s. C J H Investments and Leasing Company Private Limited
22.	036551	M/s. Cambridge Broadband India Private Limited
23.	207072	M/s. Careerzeal Edu Private Limited
24.	184413	M/s. Chervil Pharma Private Limited
25.	216782	M/s. Chetna Network Systems Private Limited
26.	171935	M/s. Competent Cybertech Private Limited
27.	167237	M/s. Concept Softech Private Limited
28.	106251	M/s. Crossbow Publishers Private Limited
29.	005142	M/s. Dash Fasteners Private Limited
30.	031714	M/s. Dexter Chemicals India Private Limited

1	2	3	1	2	3
31.	158190	M/s. Double Star Builders Private Limited	60.	188162	M/s. Mescox Appliances Private Limited
32.	105345	M/s. E-Vision Portals Private Limited	61.	118002	M/s. MG Pressman Media and Communication Private Limited
33.	108510	M/s. G 8 Net Private Limited	62.	117752	M/s. Moksha Apparels Private Limited
34.	034115	M/s. Gaiety Tours and Travels Private Limited	63.	163353	M/s. NA Exports Private Limited
35.	097575	M/s. Galaxy Rent A Tel Private Limited	64.	182144	M/s. Nehaz Jewelflame Private Limited
36.	169093	M/s. Genuine Forgings Private Limited	65.	168056	M/s. Oasis Infosoft Private Limited
37.	183233	M/s. Goachic Design and Manufacturing Private Limited	66.	044500	M/s. Prime Beverage Equipments Private Limited
38.	214537	M/s. Haldia Synthetic Rubber Limited	67.	184832	M/s. Raheja Jal Vidyut Urja Private Limited
39.	130244	M/s. Himpack Adhesives Private Limited	68.	184947	M/s. Raheja Renewable Energy Private Limited
40.	039453	M/s. Iintellectkap Technology Consulting Services Private Limited	69.	114429	M/s. Rahi Communications Private Limited
41.	161108	M/s. Innovative Brand Ideas Private Limited	70.	099107	M/s. Rajatbala Knitters & Fabrics Private Limited
42.	194106	M/s. ISTS Software Consultants Private Limited	71.	042139	M/s. Regent Funds Management & Consultant Private Limited
43.	128352	M/s. Jai Jenendra Impex Private Limited	72.	163351	M/s. RKA Exports Private Limited
44.	192995	M/s. Jannat Bhumi Supply Chain Private Limited	73.	038280	M/s. S B Cad & Graphics Private Limited
45.	189564	M/s. JVM Logistics Private Limited	74.	043081	M/s. S K Das Consultants Private Limited
46.	127333	M/s. Kapil Iron Private Limited	75.	144597	M/s. S S V Tradelink Private Limited
47.	087762	M/s. KBN Tech Private Limited	76.	181007	M/s. S. P. Aquatech Engineering Private Limited
48.	055948	M/s. Kedar Chits Private Limited	77.	008225	M/s. Sabikhi and Choudhury Architects Private Limited
49.	044759	M/s. Keselec Luminaires Private Limited	78.	172013	M/s. Sahej Infrastructure Private Limited
50.	198842	M/s. Kitatec Technologies Private Limited	79.	116407	M/s. Saksham Journeys Private Limited
51.	034761	M/s. Konsortium Logistik India Private Limited	80.	190505	M/s. Sam Educare Private Limited
52.	154660	M/s. Laj It Park Private Limited	81.	041642	M/s. Sapience Advisors Private Limited
53.	154734	M/s. Laj Textile Park Private Limited	82.	176541	M/s. Sars Educom Private Limited
54.	174557	M/s. Launch Offshore Services India Private Limited	83.	169095	M/s. Satya Shree Radhey Fabrication Private Limited
55.	114770	M/s. Lazorpprintaxis Private Limited	84.	178212	M/s. SB Power Private Limited
56.	012972	M/s. Leap Lifting Equipment and Accessories Private Limited	85.	183350	M/s. Seas State Services Private Limited
57.	179442	M/s. Letchford Corporate Solutions Private Limited	86.	113366	M/s. Senso Ristorante and Bar (India) Private Limited
58.	197994	M/s. Lifeone Advisors Private Limited	87.	116184	M/s. Shreejee and Company Private Limited
59.	205088	M/s. Magnum Cellular Private Limited			

1	2	3
88.	047470	M/s. Sippy Leasing and Finance Private Limited
89.	154658	M/s. Skoda Healthcare Private Limited
90.	146369	M/s. Soulo Esalute Asia Private Limited
91.	113590	M/s. Steppe Impex Private Limited
92.	036493	M/s. Sucrex India Private Limited
93.	126749	M/s. Sum Softech Private Limited
94.	057898	M/s. Sunmati Finance and Investments Private Limited
95.	050774	M/s. Surura Business India Private Limited
97.	101488	M/s. Test Rite International (India) Private Limited
97.	115348	M/s. Theme Pack Private Limited
98.	182807	M/s. Ulticom India Private Limited
99.	167238	M/s. Ultimate Fabtex Private Limited
100.	189954	M/s. Unistad Consultants Private Limited
101.	192318	M/s. Vaibhavi Diamonds Private Limited
102.	036470	M/s. Verma & Jindal Properties Private Limited
103.	180902	M/s. Videnzale Solutions Private Limited
104.	172293	M/s. WV Technologies India Private Limited
105.	208398	M/s. Wavsys Networks Private Limited
106.	182414	M/s. WBI Tourism Private Limited
107.	174496	M/s. Weborbit Infotech Private Limited

P. L. MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
Nct of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Cuttack.753014, the 19th September 2012

No. RoC/Sec./560(5)/2012/3550—Notice is hereby  
given pursuant to sub.section (5) of Section 560 of the  
Companies Act, 1956 that the name of the following  
Companies have this day been struck off from the Register  
and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Com. No.	Name of Company
1	2	3
1.	15-011320	M/s. Sindhuja Estate Developers & Financial Solutions Limited

1	2	3
2.	15-011321	M/s. Jagannath Laminates Private Limited
3.	15-011325	M/s. Shrishti Liaison Private Limited
4.	15-011327	M/s. KB Developers and Infrastructure Private Limited
5.	15-011329	M/s. LG Infrastructure Private Limited
6.	15-011332	M/s. Biswa Future Securities Private Limited
7.	15-011344	M/s. Mecha Hawks Engineering Private Limited
8.	15-011345	M/s. Mohododhy Infrastructures Private Limited
9.	15-011347	M/s. RB Infratech Private Limited
10.	15-011348	M/s. Nanda Gopal Constructions Private Limited
11.	15-011353	M/s. Jana Kalyan Best Commercial Process and Services System Limited
12.	15-011354	M/s. Utkal Tours & Travels Private Limited
13.	15-011355	M/s. Basic Institutes Private Limited
14.	15-011357	M/s. Live Builders Private Limited
15.	15-011358	M/s. Maa Durga Logistic Private Limited
16.	15-011372	M/s. Positive Revolution Marketing Private Limited
17.	15-011374	M/s. Matrix Info Solutions Private Limited
18.	15-011377	M/s. Archus Technologies Private Limited
19.	15-011387	M/s. Sai Sudha Eastcon Private Limited
20.	15-011388	M/s. BB Financial Services Private Limited
21.	15-011394	M/s. Aastha Spices & Food Products Private Limited
22.	15-011401	M/s. Happy High Distilleries Private Limited
23.	15-011409	M/s. Mahanadi Infra-Developers Private Limited
24.	15-011410	M/s. Sai Sambhav Infrastructure & Consultancy Limited
25.	15-011411	M/s. Sai Sraddha Infrastructure Private Limited
26.	15-011414	M/s. Mas Future Financial Service Private Limited
27.	15-011420	M/s. Dreamland Resources Private Limited
28.	15-011421	M/s. Sri Sarala Enterprises Private Limited
29.	15-011425	M/s. Samridhi Outsource Consultancy Private Limited

1	2	3
30.	15-011427	M/s. Siksha 4U Private Limited
31.	15-011428	M/s. Profitline Developers Private Limited
32.	15-011430	M/s. Agnee Eastcon Private Limited
33.	15-011436	M/s. Abhishek Casting Private Limited
34.	15-011437	M/s. P. K. Infra and Power Company Private Limited
35.	15-011439	M/s. Xieon Infrastructure Private Limited
36.	15-011440	M/s. AB Vanijya Private Limited
37.	15-011442	M/s. Neo Winsight Resources Private Limited
38.	15-011444	M/s. Icon Electrical Appliances Private Limited
39.	15-011450	M/s. Sampati India Infrastructure Limited
40.	15-011459	M/s. SP Infra Development Enterprise Limited
41.	15-011461	M/s. Saara Builders Private Limited
42.	15-011469	M/s. SD Supply and Services Private Limited
43.	15-011471	M/s. ABS Infraprojects Limited
44.	15-011475	M/s. Prangya Healthcare Private Limited
45.	15-011476	M/s. Zest Infrabuilt Private Limited
46.	15-011482	M/s. Bindu Teleservice Private Limited
47.	15-011486	M/s. Levon Solutions Private Limited
48.	15-011488	M/s. Mrgl Minerals & Logistics Private Limited
49.	15-011683	M/s. System Virtual Software Solution Private Limited
50.	15-011686	M/s. Eagles Infradevelopers Private Limited
51.	15-011687	M/s. Fahrentec Solutions Private Limited
52.	15-011691	M/s. Truptikar Infra Private Limited
53.	15-011700	M/s. Shrivalli's Lands and Constructions Private Limited
54.	15-011702	M/s. Fab India Projects Private Limited
55.	15-011703	M/s. Kohinoor Online Services Private Limited
56.	15-011705	M/s. S S Bulls Private Limited
57.	15-011706	M/s. Eroma Agri Ventures India Limited

C. K. DAS  
Asstt. Company Registrar  
Odisha

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Cuttack.753014, the 21st September 2012

No. RoC/Sec./560(5)/2012/3551—Notice is hereby given pursuant to sub.section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Com. No.	Name of Company
1	2	3
1.	15-008733	M/s. Piyush Infracon Private Limited
2.	15-011716	M/s. Proud Marketing and Services Private Limited
3.	15-011732	M/s. Mahanadi Ventures Private Limited
4.	15-011735	M/s. Orcel Wireless Engineering Private Limited
5.	15-011770	M/s. Waferz Infrastructure Limited
6.	15-011782	M/s. Maxx Infra Creator & Services Private Limited
7.	15-011789	M/s. Baliyan Con-Tech Private Limited
8.	15-011790	M/s. Usha Infotainment (India) Private Limited
9.	15-011797	M/s. Hari Plastech Private Limited
10.	15-011803	M/s. Orissa Dairy Private Limited
11.	15-011807	M/s. Nexgen Builders Private Limited
12.	15-011809	M/s. 7 Miles Projects Limited
13.	15-011811	M/s. Saikrishna Homes Private Limited
14.	15-011814	M/s. NM Resources Management Private Limited
15.	15-011816	M/s. Sriram Consumer Products Private Limited
16.	15-011822	M/s. Laljhar Infrastructure Private Limited
17.	15-011824	M/s. Wreek Vengeance Financial Services Private Limited
18.	15-011826	M/s. Chamatkar Hotels Private Limited
19.	15-011827	M/s. VR Infra Projects Private Limited
20.	15-011832	M/s. Facile Solutions Private Limited
21.	15-011852	M/s. Akshra Associates Private Limited
22.	15-011858	M/s. Gourisankar Fire & Security Company Private Limited

1	2	3
23.	15-011860	M/s. Smile Retail India Private Limited
24.	15-011870	M/s. Bharosha Estate & Export Private Limited
25.	15-011872	M/s. Bharosha Motors Private Limited
26.	15-011875	M/s. DP Agri Foods Private Limited
27.	15-011879	M/s. Dadkes Agro Private Limited
28.	15-011883	M/s. Ceres (India) Trading Private Limited
29.	15-011887	M/s. Sonapur Art Textile Private Limited
30.	15-011888	M/s. Sri Ram Orissa Ikat Handloom Private Limited
31.	15-011889	M/s. Sonapur Techno Engineering Private Limited
32.	15-011891	M/s. First Step Infotech Solutions Private Limited
33.	15-011893	M/s. Software Solution Provider Teams Private Limited
34.	15-011894	M/s. 141 Avenues and Associates Private Limited
35.	15-011897	M/s. Systematic Techno Marketing & Services Private Limited

1	2	3
36.	15-011898	M/s. Droupadi. Infrastructure and Consultancy Private Limited
37.	15-011914	M/s. Chandrama Marketing & Tourism Development Private Limited
38.	15-011915	M/s. P-Square Eduventures Private Limited
39.	15-011916	M/s. R. K. Mohanty Construction Private Limited
40.	15-011923	M/s. Rain Tree Hotels Private Limited
41.	15-011928	M/s. Conmore IT & BPO Services Private Limited
42.	15-011865	M/s. Prajapti Associates Private Limited
43.	15-011906	M/s. Aim Steels Private Limited
44.	15-011932	M/s. Twin City Infrastructure Private Limited
45.	15-011934	M/s. Max Developers Private Limited

C. K. DAS  
Asstt. Registrar of Companies  
Odisha

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012